

भारत सरकार  
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1704

जिसका उत्तर 08 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है।

17 अग्रहायण, 1943 (शक)

आधार नामांकन केन्द्र

**1704. श्री कृपानाथ मल्लाह:**

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश भर में स्टैंड-एलोन आधार नामांकन और अद्यतन केन्द्र खोलने की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) इन केन्द्रों के लिए अनुमानित निधि का ब्यौरा क्या है और संभावित लक्ष्य क्या है;
- (ग) क्या सरकार की असम राज्य के उपर्युक्त केन्द्र खोलने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
- (घ) उक्त केन्द्रों के कब तक खोले जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

**(क):** जी, हाँ। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने देशभर के 122 शहरों में 166 आधार सेवा केंद्र (एएसके) स्थापित करने और संचालित करने के लिए 2 (दो) सेवा प्रदाताओं को नियुक्त किया है। अब तक ऐसे 59 एएसके प्रचालनरत हैं।

ये एएसके विभिन्न यूआईडीएआई रजिस्ट्रारों के तहत पहले से ही कार्यरत 50,000 से अधिक आधार केंद्रों के अलावा स्वचालित आधार नामांकन और अद्यतन केंद्र हैं।

**(ख):** आरएफपी के अनुसार एएसके की स्थापना की अनुमानित लागत 630 करोड़ रुपये है, जिसे सेवा प्रदाताओं द्वारा वहन किया जाना है। यूआईडीएआई सेवा प्रदाताओं को प्रति माह किए गए नामांकन और अद्यतन लेनदेन की वास्तविक संख्या संबंधी प्रस्तुत किए गए चालान के लिए निर्धारित दर के अनुसार भुगतान करेगा।

एएसके के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं है। हालांकि, सभी एएसके से प्रति किट प्रति दिन कम से कम 15 लेनदेन करने की उम्मीद की जाती है।

**(ग):** असम राज्य के 15 शहरों में कुल 16 एएसके स्थापित करने की योजना है। एएसके की सूची अनुबंध-1 के रूप में संलग्न है।

**(घ):** असम राज्य में 2 ( दो) एएसके, एक गुवाहाटी में और दूसरा सिलचर में पहले से ही प्रचालनरत हैं। मार्च 2022 तक 4 (चार) और एएसके के प्रचालनरत होने की उम्मीद है। शेष 10 (दस) केंद्रों के वर्ष 2022-23 के दौरान प्रचालनरत हो जाने की उम्मीद है।

अनुबंध- I

क्र. सं.	राज्य	एएसके का स्थान	स्थिति
1	असम	गुवाहाटी	प्रचालनरत
2	असम	सिलचर ( कछार जिला)	प्रचालनरत
3	असम	बारपेटा	नियोजित
4	असम	बोंगईगांव	नियोजित
5	असम	धुबरी	नियोजित
6	असम	डिब्रूगढ़	नियोजित
7	असम	गोलाघाट	नियोजित
8	असम	गोलपाड़ा	नियोजित
9	असम	गुवाहाटी	नियोजित
10	असम	जोरहाट	नियोजित
11	असम	कामरूप - महानगर	नियोजित
12	असम	लखीमपुर	नियोजित
13	असम	नगांव	नियोजित
14	असम	शिवसागर	नियोजित
15	असम	तेजपुर ( सोनितपुर जिला)	नियोजित
16	असम	तिनसुकिया	नियोजित

\*\*\*\*\*